



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 1981/अग्राहयण 17, 1903

No. 549] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 1981/AGRAHAYANA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अम मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर 1981

[कां.भां. 892(अ).—अन्नक आनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (अ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के अम मंत्रालय की प्रधिसूचना सं. कां.भां. 427(अ) तारीख 10 जून, 1981 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 जून, 1981 के पृष्ठ 723-24 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक प्रालेप और सुसाव बाने गए थे;

और उक्त राजपत्र 10 जून, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त प्रालेपों और सुसावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रवर्ग व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम

मंत्रालय की अधिसूचना सं. कां.भां. 790(अ) तारीख 15 सितम्बर, 1980 को अधिकांश करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात अन्नक आनों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिविष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिविष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और विदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख के प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

1

2

अनुसूची:

मजदूर (पुरुष और महिला) क्लीनर, संवेद्य- 7.75 रु० (भूमि के बाहक/प्राप्ति बाय, वाचमैन, खलासी, ऊपर कार्य के लिए) पानी बासा, मजदूर लवाई करने वाला, 9.25 रु० (भूमि के नीचे वाली, अन्य प्रवर्ग बाहे के किसी भी नाम कार्य के लिए) से शात हों, जो अनुसूची प्रकृतिक के हैं।

अर्द्ध कुशल:

हथौड़ा चलाने वाला, अन्नक कटर श्रेणी 2, 9.75 (भूमि के ऊपर साट्टर ड्रेस-श्रेणी 2, गेज कर्मकार, खनक, कार्य के लिए) डिस्क कर्मकार, परिवार, रसोइया, विल्कोटक 11.75 रु० (भूमि के नीचे बाहक, गनमैन, बाइनिंग इंजन चालक श्रेणी 2, कार्य के लिए)

1

2

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1981

शियरर, बेस्ट कटर, सहायक फिटर, अन्य
प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों,
जो भ्रष्ट कुशल प्रकृति के हैं।

कृषक :

ड्रिलर, मिस्कोटकरी, मिस्त्री, धमक कटर श्रेणी 11.75 रु० (भूमि के ऊपर
1, बर्छ, लोहार, ड्रेसर श्रेणी 1, खनन मेट, कार्य के लिए)
इंजन चालक, फिटर, टर्नर, विजली मिस्त्री, 14.00 रु० (भूमि के नीचे
मोल्डर, बेल्टर, मान चालक, राज, वार्डिंग कार्य के लिए)
इंजन चालक श्रेणी 1, फायरमैन, शाट फायरर,
कम्प्रेसर चालक, मैकेनिक, पम्प फैन चालक,
ग्राइन्डर सीरवार, लेथमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे
वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल
प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

बेचापाल, ट्रेकर/भायुलिपिक, लिपिक, कम्पाउंडर 11.75 रु०
धंबारी/धंवार भार साधक, मिस्ट्र भार-
साधक, टाइम कीपर, रोकड़िया, शिगु-रुक्ष
परिवार, पर्यवेक्षी अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी
भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति
के हैं।

स्पष्टीकरण :-

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

1. इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें प्राधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रवासों का, यदि कोई हों, तकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विराम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।
2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।
3. जहाँ संविदा या करार पर प्राधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।
4. (क) "भ्रष्ट कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथम कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं ;
(ख) "भ्रष्ट कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से प्रजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत भ्रष्ट कुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;
(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथम शिष्ट के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रजित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के तबण व्यक्तियों को और असमर्थ व्यक्तियों को वे मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्म-
चारों को दिये गए दरों का कमरा: 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

[सं० एस० 32019/4/81-अन्वू सी (एम अन्वू)]

राजीव प्रण, मवर सचिव

S.O. 892(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in mica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948) at pages 723-724 of the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th June, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 427(E) dated the 10th June, 1981 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 10th June, 1981.

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in super-session of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 790(E) dated the 15th September, 1980 the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in mica mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages
1	2
Unskilled	
Mazdoor (male and female), Cleaner, Messenger/Office boy, Watchman, Rs. 7.75 (for work above ground)	
Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Mali, any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	Rs. 9.25 (for work below ground)
Semi-skilled	
Hammerman, Mica cutter-Grade II, Head Cooly, Sorter, Dresser-Grade II, Gauge worker, Disc worker, Attendant, Cook, Explosive carrier, Gun man, Winding engine driver Grade II, Shearers, Waste-cutter, Assistant fitter, any other categories by whatever name called which are of semi-skilled nature.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Skilled	
Driller, Blaster, Mistry, Mica cutters, Grade I, Carpenter, Blacksmith, Rs. 11.75 (for work above ground)	
Dresser Grade I, Mining mate, Engine driver, Fitter, Turner, Rs. 14.00 (for work below ground)	

1	2
<p>Electrician, Moulder, Welder, Vehicle driver, Mason, Winding engine driver Grade I, Fireman, Shot firer, Compressor driver, Mechanic, Pump fan driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.</p>	<p>(2) the minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also;</p> <p>(3) where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above, the higher rates would be protected and treated as minimum wages;</p> <p>(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;</p> <p>(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;</p> <p>(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.</p> <p>(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.</p>
Clerical :	
<p>Accountant, Typist/Steno, Clerk, Rs. 11.75</p> <p>Compounder, Store keeper/In-charge, Shift incharge, Time keeper, Cashier, Creche attendant, Supervisor, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.</p>	
Explanation:—For the purpose of this notification,—	
<p>(1) the minimum rates of wages revised are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rests;</p>	

[No. S-32019/4/81-WC(MW)]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

